




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 336 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2001/आषाढ़ 7, 1923

No. 336]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2001/ASADHA 7, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2001

सं. 72/2001-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 487(अ).— अभिहित प्राधिकारी, यू.एस.ए., थाईलैंड और कोरिया गणराज्य (जिनको इसके पश्चात् “संबद्ध देशों” कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाली एकीलिक फाइबर के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 14 अक्टूबर, 1997 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

।क। यू.एस.ए., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड में उत्पादित या उससे निर्यातित एकीलिक फाइबर का, इसके सामान्य मूल्य से कम पर भारत को निर्यात किया गया है ;

।ख। घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई है ,

।ग। यह क्षति यू.एस.ए., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड में उत्पादित या उससे निर्यातित से आयात द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की गई है ;

और केंद्रीय सरकार ने अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 24 अक्टूबर, 1997 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 81/97- सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्टूबर, 1997।सा0का0नि0 619।अ।, तारीख 24 अक्टूबर, 1997। द्वारा प्रतिपादित शुल्क अधिरोपित किया है ।

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 19 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के अनुसार पुनर्विलोकन करने पर निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

204061/2001

(1)

।क। संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए एक्रिलिक फाइबर का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य का भारत से कम कीमत पर किया गया ;

।ख। यदि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क हटाया गया तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी ;

।ग। यदि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क हटाया गया तो घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण होगी ,

और केंद्रीय सरकार ने अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 8 जून, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय [राजस्व विभाग] की अधिसूचना सं० 86/2000—सीमाशुल्क, तारीख 8 जून, 2000।सा०का०नि० 527।अ।, तारीख 8 जून, 2000 द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया है;

और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण। अपील अधिकरण। जिसे इसमें इसके पश्चात् सीगाट कहा गया है। ने कमशः मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड और फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मनुफक्चर्स के मामले में अपील स. सी/266/2000-ए डी और सी/क्रॉस/204/2000-ए डी में, अपने अंतिम आदेश सं 1/2000-ए डी., तारीख 12 फरवरी, 2001 में यह अभिनिर्धारित किया है कि “संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी निर्यातकों पर लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क 0.296 अमेरिकी डालर प्रति किलोग्राम बैठता है, कोरिया गणराज्य से सभी निर्यातकों पर प्रतिपाटन शुल्क 0.534 अमेरिकी डालर प्रति किलोग्राम बैठता है और मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कम्पनी लिमिटेड के मामले में यह 0.180 अमेरिकी डालर प्रति किलोग्राम है और थाईलैंड से अन्य सभी निर्यातकों के मामले में यह 0.784 अमेरिकी डालर प्रति किलोग्राम बैठता है। इसे तालिका के रूप में नीचे दिया गया है :-

क्रम सं	देश	निर्यातकर्ता का नाम	शुल्क की रकम प्रति किलोग्राम अमेरिकी डालर में।
1	यू एस ए	सभी निर्यातक	0.296
2	कोरिया गणराज्य	सभी निर्यातक	0.534
3	थाईलैंड	(i) मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड	0.180
		(ii) सभी अन्य निर्यातक	0.784”;

और अभिहित प्राधिकारी ने सीगाट के तारीख 12 फरवरी, 2001 के उपरोक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है ,

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ। पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 1।।, 15। एवं 16। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय [राजस्व विभाग] की अधिसूचना सं० 86/2000—सीमाशुल्क, तारीख 8 जून, 2000।सा०का०नि० 527।अ।, तारीख 8 जून, 2000। के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड 1।। तारीख 8 जून, 2000 में प्रकाशित, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ 14। में उल्लिखित और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले इससे संलग्न सारणी के स्तंभ 12। में विनिर्दिष्ट देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर जिनका उक्त सारणी के स्तंभ 13। में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात किया गया है और भारत में आयात किया जाता है, उक्त सारणी के स्तंभ 14। तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	देश	निर्यातकर्ता का नाम	शुल्क की रकम प्रति किलोग्राम अमेरिकी डालर में।
11	12	13	14
1	यू.एस.ए.	सभी निर्यातक	0.296
2	कोरिया गणराज्य	सभी निर्यातक	0.534
3	थाइलैंड	मैसर्स थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड	0.180
		अन्य निर्यातक	0.784

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क 24 अप्रैल, 2002 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी जब तक कि ऐसे समय से पूर्व राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय सीमा बढ़ाई नहीं जाती है या अधिसूचना प्रतिसंहत नहीं कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क का संदाय भारतीय करेंसी में किया जाएगा। ऐसे प्रतिपाटित शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनिमय की दर” वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 14 की उपधारा 13 के खंड 1क के उपखंड ii के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो और “विनिमय की दर” के अधिधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेश पत्र” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/71/2001-टीआरयू]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2001

## No. 72/2001-CUSTOMS

**G.S.R. 487(E).—** WHEREAS in the matter of import of Acrylic Fibre falling under Chapter 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP (hereinafter referred to as “subject countries”), the Designated Authority, *vide* its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th October, 1997, had come to the conclusion that—

- Acrylic Fibre originating in, or exported from, USA, Thailand and Korea RP, has been exported to India below its normal value;
- the domestic industry has suffered material injury;
- the injury has been caused to the domestic industry by the exports originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid final findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 81/97-Customs, dated the 24th October, 1997 [G.S.R. 619(E), dated the 24th October, 1997], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 24th October, 1997;

AND WHEREAS the Designated Authority *vide* its final findings in review, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 19th April, 2000, had concluded that—

- Acrylic Fibre originating in, or exported from, subject countries has been exported to India below its normal value;

- (b) the domestic industry would suffer material injury in case the anti-dumping duty in force is removed;
- (c) the injury to the domestic industry would be caused from imports from subject countries in case the anti-dumping in force is removed;

AND WHEREAS on the basis of the final findings in review of the Designated Authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 86/2000-Customs, dated the 8th June, 2000 [G.S.R. 527 (E), dated the 8th June, 2000], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 8th June, 2000;

AND WHEREAS the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, New Delhi (hereinafter referred to as CEGAT), in its final order No. 1/2001-AD, dated the 12th February, 2001 in Appeal No. C/266/2000-AD with C/Cross/304/2000-AD in the matters of M/s. Thai Acrylic Fibre Company Ltd. and Forum of Acrylic Fibre Manufacturers respectively has held that “ the anti-dumping duty imposable on all exporters from USA comes to 0.296 US \$ per kg., anti-dumping duty on all exporters from Korea RP works out to 0.534 US\$ per kg. and in the case of M/s. Thai Acrylic Fibre Company Ltd. it is 0.180 US\$ per kg. and all other exporters from Thailand at 0.784 US\$ per kg. It is given in a tabular form herein below:

S.No.	Name of the Country	Name of the Exporter	Amount of duty (US \$ per kg.)
1.	USA	All Exporters	0.296
2.	Korea RP	All Exporters	0.534
3.	Thailand	(i) Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	0.180
		(ii) All Other Exporters	0.784” ;

AND WHEREAS the Designated Authority has accepted the above order of CEGAT dated the 12th February, 2001;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), (5) and (6) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 86/2000-Customs, dated the 8th June, 2000 [G.S.R. 527 (E), dated the 8th June, 2000], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 8th June, 2000, the Central Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby imposes on the said Acrylic Fibre falling under Chapter 55 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when originating in, or exported from, the countries specified in column (2) of the Table hereto annexed, by the exporters mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S.No.	Name of the Country	Name of the Exporter	Amount of duty (US \$ per kg.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	USA	All Exporters	0.296
2.	Korea RP	All Exporters	0.534
3.	Thailand	M/s. Thai Acrylic Fibre Company Ltd.	0.180
		Other Exporters	0.784